

9580/2021

भा.कृ.अनु.प-केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान

शिमला- 171 001 हि. प्र.

सं.एफ.7-37/2011/स्था-1/

08/10/2021

कार्यालय आदेश

निदेशक, केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, शिमला द्वारा परिषद् के दिनांक 15.9.2021 के कार्यालय जापन सं. GAC-21-34/2021-CDN में संलग्न सचिव, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के अर्धशासकीय पत्र सं.1/11/2021-P&PW(E) दिनांक 3.6.2021 के अनुपालन में डॉ. पंकज कुमार, संस्थान के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी एवं कार्यालय प्रमुख को निम्न कार्य हेतु नोडल अधिकारी नामित किए जाने के आदेश पारित किए जाते हैं।

Nodal Officer to coordinate with the family members of the deceased Govt. employees(Due to COVID-19 Pandemic) to extend assistance in paperwork and facilitate expeditious disbursement of the entitlements as per the Ministry of Personnel Public Grievances and Pensions, Department of the Personnel and .Training, New Delh

Signed by पूनम सूद POONAM SOOD

Date: 08-10-2021 12:37:00

Reason: Approved

सहायक प्रशासनिक अधिकारी (स्था-1)

वितरण:

1. डॉ. पंकज कुमार मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, शिमला को उपरोक्त संदर्भित पत्र की प्रति सहित ।
2. संयुक्त निदेशक, केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान क्षेत्रीय केन्द्र, मोदीपुरम ।
3. परियोजना समन्वयक AICRP(P), केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, शिमला ।
4. संभागाध्यक्ष, फसल सुधार एवं बीज तकनीकी संभाग/फसल उत्पादन संभाग/सामाजिक विज्ञान संभाग/पौध संरक्षण संभाग/फसल दैहिकी, रसायन एवं फसलोत्तर तकनीकी संभाग, केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, शिमला ।
5. कार्यकारी केन्द्राध्यक्ष, केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान क्षेत्रीय केन्द्र, जालन्धर/ग्वालियर/पटना/शिलॉग । प्रभारी वैज्ञानिक, केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान क्षेत्रीय केन्द्र, ऊटी/कुफरी-फागू-ईकाई 1.6
7. वरिष्ठ वित्त एवं लेखा अधिकारी, केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, शिमला ।
8. सहायक प्रशासनिक अधिकारी स्था-I/स्था-II/(बिल एवं कैश)/भण्डार/कार्य एवं अनुबन्ध, केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला ।
9. प्रभारी पुस्तकालय/प्रभारी, पी.एम.ई. (कक्ष)/प्रभारी (राजभाषा)/प्रभारी श्रम (अपर लैब/लोअर लैब), केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, शिमला ।
10. डॉ. जागेश कुमार तिवारी, वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रभारी, कृषि ज्ञान प्रबंधन इकाई (AKMU) केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला को संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।
11. निदेशक महोदय/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के निजी सचिव, केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, शिमला

INDIAN COUNCIL OF AGRICULTURAL RESEARCH
KRISHI BHAWAN: NEW DELHI

F. No. GAC-21-34/2021-CDN

Dated: 15 09.2021

OFFICE MEMORANDUM

Sub: Nomination of Nodal Officer to coordinate with the family members of the deceased Government employee to extend assistance in paperwork and facilitate expeditious disbursement of the entitlements.

The Competent Authority has decided to Nominate "Head of Office" of all the Institutes of ICAR as the Nodal Officer of their respective Institute to coordinate with the family members of the deceased Government employee to extend assistance in paperwork and facilitate expeditious disbursement of the entitlements as per the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Department of the Personnel and Training, New Delhi D.O.No. 1/11/2021-P&PW (E) dated 3rd June, 2021(enclosed).

Meena
15/9/21

(Jitender Kumar Meena)

Under Secretary (GAC), ICAR


At/nat
17/09/21
2
gmm/m
24/9/2021

Distribution:-

1. All the Directors/ Project Directors / NRCs/ PDs/ ZPDs/ Bureaux/ATARIs for information and compliance.
2. DDO, ICAR Hqrs.
3. All Officers/Sections at ICAR Krishi Bhawan/KAB - I & II/NASC
4. Sr.PPS to DG, ICAR/ PPS to FA (DARE)/ PPS to Secretary, ICAR
5. Media Unit for placing on the ICAR website.
6. Guard file/Spare copies.

728745/2021/O/o DG (ICAR)

इन्दोवर पण्डेय, आई. ए. एस.
सचिव
Indevar Pandey, IAS
Secretary
Tel : 011-23742133
Fax : 011-23742546
Email : secy-arpa@nic.in



भारत सरकार
जनित, शैव विद्यालय (एन) विभाग
देशीय वन्य जीव संरक्षण विभाग
नियंत्रण कक्षा, (एन) विभाग,
नई दिल्ली-110001
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE
SECRETARIAT
DEPARTMENT OF PENNSION & PROVISIONS
Dr. NARAYAN BHAWAR, Joint Secretary
New Delhi-110001

D.O No 1/11/2021-P&PW (E)

3rd June, 2021

Dear Sir / Madam,

As you are aware, quite a few Government employees/officers have lost their lives in the recent surge of the Covid-19 pandemic. In many cases, the deceased employees/officers were the sole bread-winners of the family. The untimely death of the employees/officers has left the families devastated and also in urgent need of funds in the midst of the pandemic. It is, therefore, incumbent on the Government to ensure that the family pension and other entitlements in respect of the deceased employees are released to their families expeditiously.

2. On death of a Government employee during service, in all cases, family pension is payable @50% of the last pay for a period of first 10 years and @ 30% of the last pay thereafter. The completion of the process of sanction of family pension and its disbursement through the Bank may take some time, as it involves reference to PAO and CPAO. To deal with such situations, Rule 80-A of the CCS (Pension) Rules, 1972 provides for payment of provisional family pension and also provisional death gratuity, pending issue of the Pension Payment Order.

3. Department of Pension & PW has issued instructions vide OM No. 1/11/2020-P&PW (E) dated 29th July, 2020 for sanction of provisional family pension by the Head of Office immediately on receipt of a claim for family pension along with death certificate from the eligible family member, without waiting for forwarding of the family pension case to Pay & Accounts Office. Rule 80-A also provides for payment of provisional death gratuity by the Head of Office, once the family pension/death gratuity case has been forwarded to the PAO.

4. My Department has separately issued instructions to all Ministries/Departments vide O.M. No. No 1/11/2021-P&PW (E) dated 3rd June, 2021 (copy enclosed) for expeditious disbursement of the entitlements of the family on death of a Government servant, including the detailed procedure thereof.

5. I would request you to issue suitable instructions to the concerned officers in the Ministry/Department as well as in the attached and subordinate offices, to strictly comply with the aforesaid rules/instructions for prompt payment of provisional family pension and provisional death gratuity to the nominees/family members. Simultaneously, the process to authorize regular family pension may be completed on highest priority to ensure first payment by the Bank within one month of the receipt of the claim for family pension.

....2/-



(Handwritten signature)
SS/P

: 2 :

6. I would also request you to appoint a **nodal officer, not below the rank of Director/Deputy Secretary**, in the Ministry/Department as well as in the Attached/Subordinate Offices, who would coordinate with the family members of the deceased Government employee to extend assistance in paperwork and facilitate expeditious disbursement of the entitlements. Details of nodal officer may be prominently displayed on the website of Ministries/Departments/attached and subordinate offices.

with regards

Encl: as above.

Yours sincerely



3/6/2021
(Indevr Pandey)

Secretaries of All Ministries/Departments